

संपादकीय

खतरा गहराने का संकेत

पुतिन और बाइडेन के संबंधों से कुछ संकेत पाने के प्रयास में नजर आई। संकेत मिले भी। संकेत यह है कि यूक्रेन युद्ध का समाधान अभी कहीं करीब नहीं है। खतरा बढ़ रहा है।

सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में अमेरिका की तर्ज पर स्टेट ऑफ द यूनियन संबंधों की शुरुआत की गई थी। लेकिन इस बार राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के संबंधों पर दुनिया का जितना ध्यान केंद्रित हुआ, वैसा शायद पहले ही कभी हुआ हो। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि ये संबंधों युद्ध की पहली बरसी से सिर्फ तीन दिन पहले हुआ, लेकिन इसका एक और कारण इस भाषण के एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की हुई यूक्रेन यात्रा भी रहा। फिर पुतिन के संबोधन के कुछ घंटों बाद ही पोलैंड में बाइडेन का भाषण तय था। तो दुनिया इन दोनों संबोधनों से कुछ संकेत पाने के प्रयास में नजर आई। संकेत मिले भी। संकेत यह है कि यूक्रेन युद्ध का समाधान अभी कहीं करीब नहीं है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस से घुटने टेकवाने की पुरानी रणनीति पर आगे बढ़ने का इरादा दिखाया है, तो पुतिन ने भी दो टूक कहा है कि वे रूस का मकसद पूरा होने तक लड़ाई जारी रखेंगे।

मास्को में रूसी सांसदों और सेना के बड़े अधिकारियों की सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने कहा-“यूक्रेन के लोगों को कीव प्रशासन और उसके पश्चिमी मालिकों का बंधक” बनाया हुआ है। एक तरह से इस देश पर राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक कब्जा कर लिया गया है। इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिका के साथ रूस की अब बची एकमात्र परमाणु अस्त्र नियंत्रण संधि में अपने देश की भागीदारी सस्पेंड करने की घोषणा की। इसके दो पहले संधियों से अमेरिका डॉनल्ड ट्रंप के जमाने में हट गया था। तो अब सूरत यह है कि दोनों बड़ी ताकतों के बीच अस्त्र नियंत्रण का कोई समझौता नहीं है। इस स्थिति में एक तीसरा पहलू चीन का है, जिस पर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वह रूस को सैन्य मदद देने की तैयारी में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेन्स्की कह चुके हैं कि अगर चीन ने ऐसा किया, तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। स्पष्टतः हालात लगातार खतरनाक दिशा में जा रहे हैं।

जीडीपी और वाहन बिक्री के आंकड़ों का बाजार पर रहेगा असर

मुंबई। दुनिया के केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर में आगे भी बढ़ोतरी करने की आशंका से बीते सप्ताह ढाई फीसदी से अधिक लुब्धके घरेलू शेयर बाजार पर अगले सप्ताह वैश्विक रुख के साथ ही स्थानीय स्तर पर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और फरवरी की वाहन बिक्री के जारी होने वाले आंकड़ों का असर रहेगा।



बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 1538.64 अंक अर्थात 2.52 प्रतिशत का गोता लगाकर सप्ताहांत पर 60 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 59463.93 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 478.4 अंक यानी 2.7 प्रतिशत की बड़ी गिरावट लेकर 17465.80 अंक पर रहा।

समीक्षाधीन सप्ताह में बीएसई की डिगज कंपनियों की तरह

मझौली और छोटी कंपनियों में भी जमकर बिकवाली हुई। इससे सप्ताहांत पर मिडकैप 506.47 अंक यानी 2.1 प्रतिशत लुब्धकर 24178.73 अंक और स्मॉलकैप 461.81 अंक अर्थात 1.65 प्रतिशत टूटकर 27584.59 अंक पर आ गया।

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, पिछले सप्ताह संसेक्स और निफ्टी लगातार छठे दिन गिरते

साथ-साथ वैश्विक बाजारों की दिशा पर नजर रखेगा क्योंकि वर्ष 2023 की पहली छमाही में अमेरिका में ब्याज दर परिवर्द्धन एक प्रमुख कारक बना रहेगा। वर्तमान में बाजार भूराजनीतिक स्थिति पर अधिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है।

स्थानीय स्तर पर अगले सप्ताह 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी होने वाले हैं, जिसका बाजार पर स्पष्ट असर देखा जा सकेगा। इसके साथ ही अगले सप्ताह फरवरी की वाहन बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। बाजार को दिशा देने में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अमेरिकी फेड रिजर्व के एक बार फिर ब्याज दर में बढ़ोतरी करने की संभावना के साथ ही अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्याभ्रस की घोषणा के बीच उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने से चिंतित निवेशकों की एचडीएफसी, माफि, एसबीआई,

रिलायंस, आईसीआईआईसी और एनटीपीसी जैसी दिग्गज कंपनियों में हुई बिकवाली से सोमवार को संसेक्स 311.03 अंक की गिरावट लेकर 60691.54 अंक और निफ्टी 99.60 अंक उतरकर 17844.60 अंक पर आ गया। वैश्विक बाजार की गिरावट के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर कमोडिटीज, ऊर्जा, आईटी, तेल एवं गैस, रियल्टी और टेक समेत चौदह समूहों में हुई बिकवाली से ग्लोबल को संसेक्स 139.18 अंक गिरकर 59605.80 अंक और निफ्टी 43.05 अंक उतरकर 17511.25 अंक पर आ गया। इसी तरह दुनिया के केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर में आगे भी बढ़ोतरी करने की आशंका से वैश्विक बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर धातु, कमोडिटीज और ऑटो समेत पंद्रह समूहों में हुई बिकवाली से शुक्रवार को संसेक्स 141.87 अंक की गिरावट लेकर 59463.93 अंक और निफ्टी 45.45 अंक फिसलकर 17465.80 अंक पर रहा।

अंक और निफ्टी 272.40 अंक लुब्धकर 17554.30 अंक पर रहा। वैश्विक बाजार के कमजोर रुख के साथ ही स्थानीय स्तर पर फरवरी माह के वायदा सौदा निपटान को लेकर यूटिलिटीज, पावर, रियल्टी, कैपिटल गुड्स और कंप्यूटर हार्डवेयर समेत चौदह समूहों में हुई बिकवाली से ग्लोबल को संसेक्स 139.18 अंक गिरकर 59605.80 अंक और निफ्टी 43.05 अंक उतरकर 17511.25 अंक पर आ गया। इसी तरह दुनिया के केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर में आगे भी बढ़ोतरी करने की आशंका से वैश्विक बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर धातु, कमोडिटीज और ऑटो समेत पंद्रह समूहों में हुई बिकवाली से शुक्रवार को संसेक्स 141.87 अंक की गिरावट लेकर 59463.93 अंक और निफ्टी 45.45 अंक फिसलकर 17465.80 अंक पर रहा।

पुर्सल ने बेंगलुरु ओपन का खिताब जीता

बेंगलुरु। मैक्स पुर्सल ने रविवार को यहां ऑल आस्ट्रेलियाई फाइनल में जेम्स डकवर्थ को तीन सेट में हराकर बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट के साथ अपना लगातार दूसरा एटीपी चैलेंजर एकल खिताब जीता।

डकवर्थ को पहला सेट जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी लेकिन पुर्सल ने इसके बाद जोरदार वापसी करते हुए 3-6 7-5 7-6 (5) से जीत दर्ज की।

आईआरसीटीसी ने की नई शुरुआत, सिर्फ 20 रुपए में मिलेगा 5 स्टार जैसा आलीशान कमरा

नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और अगर आपके पास ट्रेन की कन्फर्ट टिकट है तो आप 40 रुपए में शानदार कमरे में 48 घंटे तक रुक सकते हैं। भारतीय रेलवे की रियार्यिंग रूम में आपको लाजरी होटल की तमाम सुविधाएं मिलती हैं। यह फैसिलिटी अधिकांश बड़े स्टेशनों पर आपको मिल जाएगी।



जिन्हें गर्मी और बरसात की वजह से जान भी गंवांनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने यह सेवा शुरू की है।

भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लजरी रियार्यिंग रूम तैयार किए हैं। इस रूम को बुक करने के लिए आपके पास पीएनआर नंबर होना चाहिए। यह सुविधा आपको रेलवे के रियार्यिंग रूम में मिलती है। आप इस रूम में 48 घंटे तक ट्रेन का वेट कर सकते हैं। यहां आपसे केवल 20-40 रुपए ही

अनामिका, अनुपमा और गोविंद को स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक

सोफिया। भारतीय मुक्केबाजों अनामिका (50 किग्रा), अनुपमा (81 किग्रा) और गोविंद कुमार साहनी (48 किग्रा) को रविवार को यहां स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट के अपने फाइनल मुकाबलों में शिकस्त के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

गतराष्ट्रीय चैंपियन अनामिका को लाइटवेट फाइनल में चीन की ह्यू मेइथी के खिलाफ 1-4 के खंडित फैसले से हार झेलनी पड़ी। गोविंद को भी कड़े मुकाबले में उज्बेकिस्तान के शोदियोरजोन मेलिकुजीव के खिलाफ खंडित फैसले में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा।

दूसरी तरफ अनुपमा को ऑस्ट्रेलिया की एमा सुरु ग्रीनट्री ने तकनीकी दक्षता के आधार पर 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया।

भारतीय मुक्केबाजों ने टूर्नामेंट में तीन रजत और पांच कांस्य पदक सहित कुल आठ पदक जीते। गोविंद और 2023 एशियाई अंडर-22 चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता मेलिकुजीव के बीच मुकाबले में दोनों खिलाड़ी आक्रामक दिखे और दोनों ने एक दूसरे के शरीर पर कई मुक्के लगाए। एशियाई चैंपियनशिप 2022 के कांस्य पदक विजेता गोविंद ने अपनी गति और तेज मुक्कों का इस्तेमाल किया लेकिन इस दौरान अपना गार्ड नीचे कर रहे थे जिसका फायदा विरोधी मुक्केबाज ने उठाया। अनामिका ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन मेइथी के मजबूत डिफेंस के नहीं भेद पाई। चीन की खिलाड़ी ने पहला दौर सर्वसम्मत फैसले से जीता।

मयंक करेंगे शेष भारत की कप्तानी

मुंबई। कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज और कप्तान मयंक अग्रवाल एक मार्च से होने वाले इरानी कप मैच में शेष भारत की कप्तान संभालेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने सोमवार को इसकी घोषणा की। शेष भारत टीम ग्वालियर के रूप में स्टेटेडिम पर रणजी ट्रॉफी 2021-22 चैंपियन मध्य प्रदेश का सामना करेगी।



आज का राशिफल

मेघ : आज इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। आप भी व्यस्त रहने से थकान महसूस कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को संतुलित तथा व्यवस्थित करना पड़ेगा जिससे अधिकतर काम समय पर पूरे होने जाएंगे। बच्चों को समय दो जीवसाथी का सहयोग मिलेगा।

कन्नड सिनेमा की एक और ब्लॉकबस्टर, ध्रुव सरजा की मार्टिन के टीजर ने उड़ा होश

हिन्दी सिनेमा को दक्षिण भारत का क्षेत्रीय सिनेमा जमकर टक्कर दे रहा है। पिछले कुछ सालों में क्षेत्रीय सिनेमा ने जिस तरह से हिन्दी भाषी दर्शकों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी प्राप्त की है उससे हिन्दी सिनेमा ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया है। वहाँ का कथानक, कहानी का अंदाज और प्रस्तुतीकरण जुदा है। आरआरआर हो या फिर केजीएफ सीरीज, इन फिल्मों ने हिंदी दर्शकों की बेस्ट मूवीज ऑन स्क्रीन देखने की प्यास को बढ़ा दिया है। जिसका भरपूर फायदा साउथ सिनेमाई इंडस्ट्री उठा रही है। आने वाले समय में



हिन्दी भाषी दर्शकों को एक और कन्नड फिल्म अपना दीवाना बनाने आ रही है। यह फिल्म है अभिनेता ध्रुव सरजा की मार्टिन, जिसे निर्माता पैरु ईडिया, हिन्दी, कन्नड, मलयालम, तमिल और तेलुगू—में प्रदर्शित करने जा रहा है। आज इस फिल्म का हिन्दी भाषा में टीजर जारी किया गया है, जिसे देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म हिन्दी भाषी दर्शकों को एक नया अनुभव प्रदान करेगी। यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म है। जिसे निर्माता इसी साल प्रदर्शित करने वाले हैं।

हॉलीवुड क्रिटिक्स असोसिएशन अवॉर्ड्स में छाई आरआरआर

एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर दुनियाभर में कमाई सम्मान और पुरस्कार पा रही है। यह सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिल्म ने बीते दिनों कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की सूची में अपनी जगह बनाई। इन पुरस्कार कार्यक्रमों में राजामौली दुनियाभर में आरआरआर की फिल्मों में मिले। अब फिल्म ने हॉलीवुड क्रिटिक्स असोसिएशन अवॉर्ड में कई श्रेणियों में पुरस्कार अपने नाम किए। इस समारोह में राजामौली, रामचरण और एएमए कीरवानी मौजूद रहे।

शब्द सामर्थ्य- 355

बाएँ से दाएँ : बहुवचन 17. दरवाजे-दरवाजे 20. एक राशि, मगर 22. नमी, सीढ़, मुहर, ठप्पा 23. औषधालय, चिकित्सालय।
ऊपर से नीचे
1. आत्मनिर्भर, स्वातंत्र्य भावना से युक्त, स्वाश्रित 2. वर्ष, बरस 3. राजी करना, रुठे हुए को खुश करना, प्रसन्न करना 4. नाटक फिल्म आदि का मुख्यपात्र 6. दीवानगी, पागलपन, 7. दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि, बँर-विरोध, अनबन 8. खीर की प्रजाति का एक फल 11. बेवकूफ, मूर्ख 12. बादल, मेघ 13. बहुत चालाक होशियार 14. जिसका मत दूसरे से मिलता हो, 15. दांत, दाँत 18. प्राति, वस्तु आदि मिलने का प्रमाण पत्र 19. दंगा-फसाद, उपद्रव विप्लव 21. बचाव, सुरक्षा।

जल्दी और आसानी से बनने वाली सूजी चीला रेसिपी

जल्दी और आसानी से बनने वाली सूजी चिल्ला रेसिपी आपके सुबह के नाश्ते के लिए एकदम सही डिश है। यह ना केवल हेल्दी ही है बल्कि खाने में स्वादिष्ट भी है और इतपट तैयार हो जाता है।



- सामग्री :
-1 कप सूजी
-1/2 कप दही
-1 प्याज, बारीक कटा हुआ
-1 शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई
-1 गाजर, कटुकस किया हुआ
-1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
-1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-चुटकी भर धनिया पत्ती
-स्वादानुसार नमक
-पकाने का तेल
-पानी आवश्यकता अनुसार

1. सूजी को बैटर बनाने के लिए एक बॉल में सूजी और दही मिलाएँ। सुनिश्चित करें कि बैटर एक जैसा, गाढ़ा और थोड़ा दरदरा हो।
2. अब इसमें सब्जियाँ डालकर फिर से मिलाएँ। सुनिश्चित करें कि सब्जियाँ पतली कटी हुई या डाईड हों ताकि बैटर भारी न हो। जरूरत हो तो थोड़ा पानी डालें।
3. अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएँ। एक चुटकी हरा धनिया छिड़कें और बैटर को 15-20 मिनट के लिए रख दें।
4. अब एक नॉन-स्टिक तवा गरम करें और उस पर तेल लगाकर हल्का ग्रश करें। जब तेल छूटने लगे तो बैटर को तवे पर एक जैसा फैलाएँ।
5. जब चीला ऊपर से सफेद हो जाए और तवे से ऊपर उठने लगे तो उसे धीरे से प्लेट दें और दूसरी तरफ से भी पकाएँ। दबाते रहें ताकि यह समान रूप से पक जाए।
6. तवा से निकालें और हरी चटनी या अपनी पसंद के किसी भी ड्रिप के साथ परोसें।

शब्द सामर्थ्य- 355

बाएँ से दाएँ : बहुवचन 17. दरवाजे-दरवाजे 20. एक राशि, मगर 22. नमी, सीढ़, मुहर, ठप्पा 23. औषधालय, चिकित्सालय।
ऊपर से नीचे
1. आत्मनिर्भर, स्वातंत्र्य भावना से युक्त, स्वाश्रित 2. वर्ष, बरस 3. राजी करना, रुठे हुए को खुश करना, प्रसन्न करना 4. नाटक फिल्म आदि का मुख्यपात्र 6. दीवानगी, पागलपन, 7. दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि, बँर-विरोध, अनबन 8. खीर की प्रजाति का एक फल 11. बेवकूफ, मूर्ख 12. बादल, मेघ 13. बहुत चालाक होशियार 14. जिसका मत दूसरे से मिलता हो, 15. दांत, दाँत 18. प्राति, वस्तु आदि मिलने का प्रमाण पत्र 19. दंगा-फसाद, उपद्रव विप्लव 21. बचाव, सुरक्षा।

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 7 | | | 8 | | |
| 9 | | | 10 | | | |
| | | 11 | 12 | | 13 | |
| 14 | | | 15 | | | |
| 16 | | 17 | 18 | 19 | | |
| 20 | 21 | 22 | | | | |
| | | 23 | | | | |

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 354 का हल

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|----|-----|---|
| ग | ल | त | ड | खा | म | खाँ | |
| ण | ल | झ | प | काँ | | | |
| श | र | ख | त | रं | | मि | |
| ज | गा | ना | प | रा | का | छा | |
| नी | र | वि | रा | ज | पा | न | |
| ना | च | प | | | य | | |
| म | र | णा | स | न | पा | नी | |
| ची | | प | | पा | | भो | |
| न | ज | रा | ना | स | पा | चा | र |

सू-दोक्- 355

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 3 | | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | | |
| 5 | 2 | 7 | 6 | | |
| 8 | 9 | | | | |
| 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | |
| | | 9 | | | |
| 8 | 9 | | 1 | | 3 |
| 5 | 2 | | 1 | 7 | 4 |

नियम
1. कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9 वर्गों का एक खंड बनाता है।
2. हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक रखा जा सकता है।
3. बाएँ से दाएँ और ऊपर से नीचे के प्रत्येक काल्पनिक पंक्ति और खंड में 1 से 9 तक के अंक किसी भी अंक का दोहराव किए बिना ही एक बार ही कर सकते हैं।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 |
| 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |

